

१ मक्तिविजय
२ मक्तिविजय
३ मक्तिविजय

४ मक्तिविजय
५ मक्तिविजय

६ मक्तिविजय
७ मक्तिविजय

८ मक्तिविजय
९ मक्तिविजय

१० मक्तिविजय
११ मक्तिविजय

१२ मक्तिविजय
१३ मक्तिविजय

१४ मक्तिविजय
१५ मक्तिविजय

१६ मक्तिविजय
१७ मक्तिविजय

१८ मक्तिविजय
१९ मक्तिविजय

२० मक्तिविजय
२१ मक्तिविजय

२२ मक्तिविजय
२३ मक्तिविजय

२४ मक्तिविजय
२५ मक्तिविजय

२६ मक्तिविजय
२७ मक्तिविजय

न गंधुगा कावे सव कामे
कर नते व हे स श्रवणा सब
सावे श्रीव उधा दृष्णहे नाम
ठे उ न घ त ले ते धे ये क ह ला ल
खोर होता था वे धी हे वानि
ये क नाथा जे र व रूप ये न सो
जन के ले हे रुधा वा ध्या ल

४२ पक्ति सुधार सप्या ध्या वे ना छि
सा बां थं त आर रु धा हं सा चि
ये क नाथा स संगित आ ये क स
ध न्ना चि दु सरी रा का कुं म्प रा
प्रि निसि मु कु र द्वा ध्या पा जि

४३ पक्ति सुधार सप्या ध्या वे ता छि सा बां
ये क नाथा जे परि नागा नां पार के
वे श वा छि ते का प्र ध म वे गा न

पो छ्या री पारा म ठे व रा चा न
ला व प धे उ न ध्या ला व र जो म
रा स शिर सा ख र तु प वे र था सु
को र उ या भा की धा त ल्मा म्या ची
श्री श ग हं सा स वा र ला तो श्री वं ध्या
दृष्णा नि दुर के ला प्र ध म सा बां न
पारा जे प्र ना त थुरे म्प वि वे ध्या जे
म ना त मु का क द्वा वा दु स्तर ले पं ता

नी पारा जे प्र ना त गे र व र व
सा व वे गा न म्प की न दु म्पे ला उ
दु सरी क धा ज रा दं ग म्पि ल गी न का
वा हिर व प म स व उ का क मि हं ना ग
ना था स दु स रा ज म्प दि का व ये क
ली गा म्प लो म प्र त उ ट विले व हं
ग रू धि जे मी व र ल गि ले हे रु धा
सो गी न ज ना र्प म्पे ल

४४ पक्ति सुधार सप्या ध्या जे व ना छि
सा बां ये क म्पि ल्पि का न थ र गे द

ला चं धा त व न क र न गे र ले
ना म्पे ले ते धे वा क्ठ वं रा त म्पे
णि जे मु ल हो ते ले व उ न म्पे म
छार वा लि ब सो न मु ल म्पे व
दे उ न म म जा विले आ स ए ना
नि वा छि सा म्प दि ने धा लु न थ
य श्वे त धा विया स न दि स ने ले ते
थे का म्पि ना ज्वा स्य ए व हिरा मु क्
व किरा त को डि को त्वा सा क र्पि
प्रि श्वे तानि श्वे ताने सां गित ले
कि ये को था म्पि म्पे ल्पि जे मु ल स म न
विले ते दो धर का जे पु ष्य सा गा न ये ग
म ग जे को उ जा ई स्य व मु क् व लो ला
गु ल हे श्वे त दे र व ती जे म्पे ए गे स्या
ले ये को पं व आ ना स गे ले हो ते ले ने गे
ले सा स पु ष्य दे ती स न् को उ गे ले अ हि
रा मु का वा लु व्वा र को ला ग ला दे ना
नि ये ने वा स पं ड र ले म्पे उ न का स्ये गे
न सां गित ले दृष्णा म्प रा नि न र ह म्पे
सो ना रा नि क थ ये रु ना था र्पे पौ गी रि

४५ पक्ति सुधार सप्या ध्या जे म्पे ल्पि सा बां
म ना ग दे व म्पे ल्पि दृष्णा दे की ग क र्पे
ला न क र्पि ल व म्पे ल्पि वा स ल्पे लो न म्पे ल्पि
पे ठे गत ये रु ना था र्पे व र्पि ग म्पे दृष्णा व
हे ने म्पि ले म्पे ला उ न म्पे ल्पि दे वी न ये गे
ग स प्या ल्पे रु ना था र्पे व र्पि ल्पि ल्पे ल्पि
दु न्पे न दे न्पु ल्पि जाल ये क ना था र्पि ल्पि
पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि
जा उ न जा थार कि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि
ले व र्पे ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि
मु क्पे ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि
४६ पं ठे न्पे ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि
वा र्पे ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि ल्पि